



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 751]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937

No. 751]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 929(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह 'ग' और समूह 'घ' पद, भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक कि यह स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी— I), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी— II), स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिकांत करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय में स्टाफ कार ड्राइवर (समूह—ग पद) की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति, —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;
या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।
- शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्रम सं.	पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी- I)	28*(2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह- 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1 : 5200-20200 रु. और 2800 रु. ग्रेड वेतन	अचयन पद	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी- I। जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु., ग्रेड वेतन 2400 रु. में उसी श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो अथवा ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी- I। और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में 15 वर्ष की संयुक्त सेवा की हो ; तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे कर्मचारी :</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं य या</p> <p>(ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5200-20200 रु. के वेतन बैंड जमा 2400 रु. के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय कर्मचारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित, किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम</p>	<p>प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(1) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — अध्यक्ष</p> <p>(2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — सदस्य</p> <p>(3) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय से अन्यथा किसी भी अन्य विभाग से अवर सचिव स्तर के अधिकारी — सदस्य</p> <p>पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(1) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — अध्यक्ष</p> <p>(2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — सदस्य</p> <p>(3) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय से अन्यथा किसी भी अन्य विभाग से अवर सचिव स्तर के अधिकारी — सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), से पहले नियमित आधार पर की गई सेवा, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस/उन पद/पदों पर विस्तारित होगा जिसके/जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>		
--	--	--

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-।।)	24*(2015) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित	वेतन बैंड-1 : 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन पद	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा ।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति : ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. में उसी श्रेणी में नौ वर्ष नियमित सेवा की हो तथा सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण किया हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन :</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे कर्मचारी :</p> <p>(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं; या</p> <p>(ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में रु. 5200-20200 के वेतनबैंड जमा 1900 रु. के ग्रेड वेतन में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय कर्मचारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित, किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है), से पहले</p>	<p>प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <p>(1) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — अध्यक्ष</p> <p>(2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो — सदस्य</p> <p>(3) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय से अन्यथा किसी भी अन्य विभाग से अवर सचिव स्तर के अधिकारी — सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

नियमित आधार पर की गई सेवा, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस/उन पद/पदों पर विस्तारित होगा जिसके/जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		
---	--	--

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	23*(2015) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष; (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लक्षद्वीप के अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। *यदि 'सीधी भर्ती' 'सीधी खुली प्रतियोगी परीक्षा' द्वारा की जानी है तो आयु सीमा 18-27 वर्ष होगी।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए य मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव; और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हों। वांछनीय: होम गार्ड/सिविल स्वयंसेवक के तौर पर तीन वर्ष सेवा की हो। टिप्पण : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में चयन के किसी स्तर पर यदि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आवश्यक अनुभव रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे तो उनके मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार अर्हता संबंधी अनुभव को शिथिल किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती अथवा पुनःनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र सैन्य कर्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति /पुनःनियुक्ति।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : वेतन बैंड-1, रु. 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह 'ग') और समूह 'ग' के कर्मचारी जो मोटर कार चलाने के लिए विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेंस रखते हों, मोटर कार चलाने की पात्रता को आंकने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर और जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय	पुष्टिकरण के मामलों पर विचार के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति :- (1) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	लागू नहीं होता।

<p>सरकार के अन्य मंत्रालयों से वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 1800 रु. में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण किए हुए कार्मिक अथवा नियमित समूह 'ग' कर्मचारी जो स्तंभ 7 में उल्लेख की गई आवश्यक अर्हताएं पूर्ण करते हों ।</p> <p>सशस्त्र सैन्य कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियुक्ति: सशस्त्र सैन्य कार्मिक जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों या रिजर्व में स्थानान्तरित किए जाने हों और अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं रखते हों, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को सशस्त्र सैन्यों से निर्मुक्ति के लिए नियत तारीख होने तक की प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दिया जाएगा। उसके पश्चात वे पुनः नियुक्ति में जारी रह सकते हैं।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित, किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	<p>—सदस्य (3) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अतिरिक्त गृह मंत्रालय से अन्यथा किसी भी अन्य विभाग से अवर सचिव स्तर का कोई अधिकारी — सदस्य</p>	
--	--	--

[फा. सं. 1-12020 / 25 / 2014—एनसीबी-1]

प्रदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Narcotics Control Bureau)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2015

G.S.R. 929(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Narcotics Control Bureau) Group 'C' and Group 'D' Posts, Recruitment Rules 2007, in so far as it relates to the posts of Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the Staff Car Driver (Group 'C' Posts), in the Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Staff Car Driver (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Staff Car Driver (Grade-I)	28*(2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group-`C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs.5200-20200 with Grade Pay Rs.2800	Non-selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	70% by promotion failing which by deputation. 30% by deputation/absorption.	Promotion : Staff Car Driver Grade – II in Pay Band 1 Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.2400 with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government. Deputation/Absorption : Officials of Central Government/State Government/Union Territories : (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with five years regular service in the pay band of Rs.5200-20200 plus grade pay	Group `C' Departmental Promotional Committee for considering promotion: (1) Deputy Director, Narcotics Control Bureau – Chairman. (2) Assistant Director, Narcotics Control Bureau – Member. (3) An officer of the level of Under Secretary from any Department	Not applicable

				<p>of Rs. 2400 in the parent cadre or department.</p> <p>Note 1: The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scales and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>	<p>other than Narcotics Control Bureau of the Ministry of Home Affairs - Member.</p> <p>Group `C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation:</p> <p>(1) Deputy Director, Narcotics Control Bureau - Chairman.</p> <p>(2) Assistant Director, Narcotics Control Bureau - Member.</p> <p>(3) An officer of the level of Under Secretary from any Department other than Narcotics Control Bureau of the Ministry of Home Affairs- Member.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

2.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Staff Car Driver (Grade-II)	24*(2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group `C' Non-Gazetted,	Pay Band -I Rs.5200-20200 with Grade Pay Rs. 2400	Non-selection	Not applicable	Not applicable

			Non-Ministerial				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Not applicable	Not applicable	70% by promotion failing which by deputation. 30% by deputation/absorption.	<p>Promotion : Staff Car Driver Grade (Ordinary Grade) in Pay Band 1 Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.1900 with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. Deputation/Absorption : Officials of Central Government/State Government/Union Territories : (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with nine years' regular service in the pay band of Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 in the parent cadre or department. Note 1: The Department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the</p>	<p>Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering promotion: (1) Deputy Director, Narcotics Control Bureau - Chairman. (2) Assistant Director, Narcotics Control Bureau - Member. (3) An officer of the level of Under Secretary from any Department other than Narcotics Control Bureau of the Ministry of Home Affairs - Member.</p>	Not applicable

				<p>service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scales and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

3.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	23*(2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Services Group-`C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs.1900	Not applicable	<p>18 to 25 years* (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands of</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Possession of a valid driving license for motor cars;</p> <p>(ii) Experience of driving a motor car for at least three years.; and</p> <p>(iii) Pass in 10th standard.</p> <p>Desirable: Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers.</p> <p>Note : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the</p>

						Lakshadweep). *If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive examination', the age limit would be 18-27 years.	opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--	--	--	--	---	--

	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/re-employment.	Deputation/Absorption : From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs.1800 in Narcotics Control Bureau who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Pay Band-1 Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.1800 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/re-employment or Armed Forces Personnel : The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or	Group 'C' Departmental Committee for considering confirmation cases: (1) Deputy Director, Narcotics Control Bureau -Chairman. (2) Assistant Director, Narcotics Control Bureau -Member. (3) An officer of the level of Under Secretary from any Department other than Narcotics Control Bureau of the Ministry of Home Affairs - Member.	Not applicable

				some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/ absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
--	--	--	--	--	--	--

[F. No. I-12020/25/2014-NCB-I]

PRADEEP GUPTA, Jt. Secy.